

**Date:** 06.09.2023

The Secretary  
BSE Limited  
Phiroze JeeJeebhoy Towers  
Dalal Street  
**Mumbai – 400 001.**

**Company Scrip Code:** 500370

**SUB : NEWSPAPER CLIPPING**  
=====

Dear Sir/Madam,

Pursuant to regulation 30 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulation, 2015, please find enclosed herewith copies of the advertisement for intimation of 54<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company which is scheduled to be held on Thursday, September 28, 2023 at 11:00 AM (IST) through Video Conferencing / Other Audio Visual Means for the financial year ended March 31, 2023 published in the newspaper.

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully  
**FOR SALORA INTERNATIONAL LIMITED**

(Gopal Sitaram Jiwarajka)  
**Chairman & Managing Director**  
**DIN:00024325**



**STURDY INDUSTRIES LIMITED**

Registered Office: Plot Number 45, Sector 1, Parwanoo, Solan, Himachal Pradesh  
CIN: L25209HP1989PLC009557; Email Id: legalsturdy@sturdyind.com

**NOTICE OF THE 34<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING**

Notice is hereby given that the 34<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of Sturdy Industries Limited will be held on Wednesday, September 27, 2023 through Video Conference / Other Audio-Visual Means (VC / OAVM) as set out in the notice of the AGM. The Annual Report of the financial year 2022-2023 including financial statements along with the AGM will be sent through electronic mode only to those members who are registered with the company, RTA and depositories. The registered members of the company who have not received physical copies of notice of AGM has been dispensed vide MCA 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, May 5, 2021, 2022 and SEBI circulars dated May 12, 2020 and January 15, 2021. The company for the financial year 2022-2023 along with notice of the website of the company at [www.sturdyindustries.in](http://www.sturdyindustries.in) and exchange at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and website of CDSL at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) and website of NSDL at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com).

**Book Closure and Dividend:** The register of members and the company will remain closed from Thursday, September 27, 2023 to September 27, 2023 (both days inclusive) for the purpose of 34<sup>th</sup> year 2022-2023.

**Remote e-Voting:** In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Regulations, 2014, as amended from time to time, the Secretarial Standard on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulations, 2015, the company is providing facility of remote e-Voting during the AGM. The company has appointed CDSL for facilitating the e-voting facility. E-voting facility would be available from 24<sup>th</sup> September, 2023 at 10:00 A.M. IST to 26<sup>th</sup> September, 2023 (5:00 P.M. IST) and shall thereafter.

The voting rights of the members shall be in proportion to the equity share capital of the company as on Wednesday, September 27, 2023. The facility of remote e-Voting system shall also be available to the members attending the meeting, who have not casted their vote by remote e-Voting shall be able to exercise their right to vote by attending the meeting in person whose name is recorded in the Register of Members. Members who have not casted their vote by remote e-Voting prior to the meeting may also attend the meeting in person and cast their vote on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting before / during the AGM. Members who have casted their vote by remote e-Voting prior to the meeting may also attend the meeting in person and cast their vote on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting before / during the AGM.

A non-individual shareholder or shareholder holding securities through Depository Participant (DP) acquires shares of the company and becomes a member of the company on the cut-off date and Password for e-Voting by sending a request at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) and the member is already registered with CDSL for remote e-Voting. The member should use his/her existing User ID and password for casting the vote.

Individual shareholders holding securities in electronic mode through Depository Participant (DP) of the company, becomes a member of the company after the cut-off date, may follow the login procedure as set out in the Notice of AGM. Members can also login by using the existing demat account held with NSDL or CDSL for e-voting facility. Shareholders whose e-mail ids are not registered can get the company by providing folio number, scanned copy of the share certificate and Aadhaar card by sending email to [legalsturdy@gmail.com](mailto:legalsturdy@gmail.com). A person who is not a member as on the cut-off date should transfer the information purposes only.

Mr. Shubham, Proprietor of M/s SDK & Associates, Practising Company Secretary, Punjab has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the AGM process before / during the AGM in a fair and transparent manner. In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer to the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) under help section or write an email to [helpdesk.evoting@cdsl.com](mailto:helpdesk.evoting@cdsl.com) or toll free no. 1800 22 55 33.

Date: 02.09.2023

Place: Parwanoo

For S

Sc

**SALORA INTERNATIONAL LIMITED**

Regd. Office : D-13/4, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110 020  
CIN: L74899DL1968PLC004962

Tel: 011-35008342, Email id: [info@salora.com](mailto:info@salora.com), Website: [www.salora.com](http://www.salora.com)

**54<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING ("AGM") OF SALORA INTERNATIONAL LIMITED**

Notice is hereby given that 54<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of Salora International Limited (the Company) will be held on Thursday, 28<sup>th</sup> September, 2023 at 11:00 AM (IST) through Video Conferencing/Other Audio Visual Means (VC / OAVM) to transact the business as set out in the Notice of the 54<sup>th</sup> AGM, in compliance with all the applicable provisions of Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and pursuant to circulars issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Securities Exchange Board of India (SEBI), allowing companies to hold AGM without physical presence of the members at a common venue. The deemed venue for 54<sup>th</sup> Annual General Meeting will be Registered Office of the Company. The quorum will be considered basis the members participating the AGM through VC/OAVM mode pursuant to section 103 of the Companies Act, 2013.

Electronic copy of the Notice of the 54<sup>th</sup> AGM, procedure and instructions for e-voting and Annual Report 2022-23 will be sent to those members whose email IDs are registered with the RTA / Company / Depositories.

Members who have not updated their email address are requested to register the same in respect of shares held in electronic form with the Depository through Depository Participant(s) and in respect of shares held physical form by sending e-mail / writing to the Company's Registrar and Share Transfer Agents ("RTA"), M/s. Skyline Financial Services Private Limited, D-153A, 1<sup>st</sup> Floor, Okhla Industrial Area, Phase - I, New Delhi - 110 020.

The Notice of 54<sup>th</sup> AGM and Annual Report 2022-23 will be made available on the website of the Company at [www.salora.com](http://www.salora.com) and at the Stock Exchange (BSE Ltd.) website at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)

The Company will provide the facility to its members to exercise their right to vote by electronic means both through remote e-voting and e-voting at AGM. Members who are holding shares in physical form and whose email addresses are not registered with the RTA / Company / Depositories may obtain the login credentials from Registrar and Share Transfer Agent viz. M/s. Skyline Financial Services Private Limited and can cast their vote through remote voting or through e-voting at the AGM. The instruction on process of e-voting will be provided as part of the Notice of the 54<sup>th</sup> AGM.

Members are requested to read all the details as set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting and e-voting at the time of AGM.

For Salora International Limited

Sd/-

Anubhav Nigam

(Company Secretary)

Date: September 03, 2023

Place: New Delhi

**ANSOLUTIONS (INDIA) LIMITED**

L63090DL2003PLC119773

ra Bhawan, D-Block Market, Vivek Vihar, Delhi-110095  
2F-CS-38, Second Floor, Ansal Plaza, Vaishali, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201010

[www.jalantransolutions.com](http://www.jalantransolutions.com), Website: [www.jalantransolutions.com](http://www.jalantransolutions.com)

**20<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING**

the 20<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of the company will be held on **September, 2023 at 11:00 A.M** through Video conferencing facility in compliance with applicable provisions of Companies Act, 2013 and the SEBI (Listing Obligations and Regulations, 2015 read with the General Circular No. 14/2020, dated 02/2022 dated 08<sup>th</sup> April, 2020, 13 April, 2020, 05 May, 2020 and 02/2022 dated 08<sup>th</sup> April, 2020, 13 April, 2020, 05 May, 2020 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Securities Exchange Board of India (SEBI) (SEBI/HO/CFD/CM D1/CIR/P/2020/79 and SEBI/HO/CFD/CM D1/2020/15 dated 15 January 2021 issued by the Securities Exchange Board of India (SEBI) (SEBI Circulars) without the physical presence of members at the business stated in the **Notice of 20<sup>th</sup> AGM.**

**AGM for the financial year 2022-23 has been completed on September 27, 2023** by electronic mode whose email ID are registered with the company. Members can join and participate in the AGM through the e-voting system and the manner of casting vote through the e-voting system during the AGM. The Annual Report is available and can be accessed through the company's website [www.jalantransolutions.com](http://www.jalantransolutions.com) website of NSDL stock exchange website [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com).

Members are requested to read all the details as set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting and e-voting at the time of AGM.

Members are requested to read all the details as set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting and e-voting at the time of AGM.

Members are requested to read all the details as set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting and e-voting at the time of AGM.

Members are requested to read all the details as set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting and e-voting at the time of AGM.

Members are requested to read all the details as set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting and e-voting at the time of AGM.

Members are requested to read all the details as set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting and e-voting at the time of AGM.



**CLASSIFIED ADT (CAD)**  
Book classified ads at Express Group's authorised Ad Depots

**PATPARGANJ : CHAVI ADVE...** 9899701024,  
22090987, 22235837, **PREET BRIDGE COMMU-**  
**UNICATION, Ph.: 9810029734, 22017210,**  
**SHAKARPUR : PARICHAY AD & MARKETING,**  
Ph.: 9350309890, 22519890,

**OM INFRA L**  
(Formerly known as OM METALS INFRA)  
CIN: L27203RJ1971PLC  
Regd. Office: 2nd Floor, A-Block, Om Tower  
Jaipur-302001 Tel: +91-141-2611111  
Website: [www.ommetals.com](http://www.ommetals.com) | E-Mail: [info@ommetals.com](mailto:info@ommetals.com)

**Notice of the 51st Annual General Meeting**

**Remote e-Voting Information**  
Notice is hereby given that the 51st Annual General Meeting of the Company will be held on Friday, September 29, 2023, through Video Conference (VC) to transact the business as set out in the Notice of the AGM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the Act) and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the Regulations) read with General Circular Nos. 14/2020 (dated April 13, 2020), 20/2020 (dated May 5, 2020), 13/2021 (dated April 13, 2021), 21/2021 (dated December 14, 2021), 02/2022 (dated February 10, 2022) and 03/2022 (dated December 28, 2022) respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Securities Exchange Board of India (SEBI) (SEBI Circulars nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 and SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/62 dated May 13, 2022 and SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2022/62 dated January 5, 2023) issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI).



## सलौरा इंटरनेशनल लिमिटेड

सीआईएन : L74899DL1968PLC004962

पंजीकृत कार्यालय : D - 13 / 4, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज II, नई दिल्ली - 110 020

फ़ोन : 011-35008342, ईमेल: info@salora.com वेबसाइट : www.salora.com

सलौरा इंटरनेशनल लिमिटेड की 54<sup>वीं</sup> वार्षिक आम बैठक ("एजीएम")

एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के सभी लागू प्रावधानों के अनुपालन में एवं इसके तहत बनाये गए नियम और इस सम्बन्ध में मिनिस्ट्री ऑफ़ कॉर्पोरेट अफेयर्स (एमसीए) और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी सभी परिपत्रों के अनुसार जोकि कंपनियों को एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना एजीएम आयोजित करने की अनुमति देता है, सलौरा इंटरनेशनल लिमिटेड (कंपनी) की 54<sup>वीं</sup> वार्षिक आम बैठक दिन गुरुवार 28, सितम्बर 2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे (IST) विडियो कॉन्फ़ेरेंसिंग / अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("वीसी" / "ओएवीएम") के माध्यम से, इसके सूचना पत्र में निर्धारित प्रकार्य के समस्त मदों के सन्दर्भ में आयोजित की जायेगी। 54<sup>वीं</sup> एजीएम के लिए निर्णायक स्थल कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम के गणना के उद्देश्य के लिए की जायेगी।

54<sup>वीं</sup> एजीएम की सूचना, ई वोटिंग के लिए प्रक्रिया, निर्देश और वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियाँ उन सदस्यों को भेजी जायेगी जिनकी ईमेल आईडी आरटीए/कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत है।

जिन सदस्यों ने अपने ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं कराया है, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे डिपॉजिटरी के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयर के सम्बन्ध में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से तथा भौतिक रूप से धारित शेयरों के सम्बन्ध में कम्पनी के रजिस्ट्रार और ट्रान्सफर एजेंट (आरटीए) मैसर्स स्काइलाइन फाइनेंसियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, डी 153 ए, पहली मंजिल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज - I, नई दिल्ली - 110020 को ईमेल/लेखन भेज कर पंजीकृत कराए।

54<sup>वीं</sup> एजीएम एवं वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 की सूचना कंपनी की वेबसाइट [www.salora.com](http://www.salora.com) और स्टॉक एक्सचेंज (बी. एस. ई. लिमिटेड) की वेबसाइट [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) पर उपलब्ध करायी जायेगी।

कंपनी अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में ई-वोटिंग (दोनों इलेक्ट्रॉनिक माध्यम) से वोट देने के अपने अधिकार का उपयोग करने के सुविधा प्रदान करेगी। ऐसे सदस्य जिनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं और जिनके ईमेल आईडी कंपनी के पास पंजीकृत नहीं है वे रजिस्ट्रार और ट्रान्सफर एजेंट मैसर्स स्काइलाइन फाइनेंसियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, से लॉग-इन क्रेडेंशियल प्राप्त कर सकते हैं तथा रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से या एजीएम के समय ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं। ई-वोटिंग की प्रक्रिया पर निर्देश 54<sup>वीं</sup> एजीएम के नोटिस के हिस्से के रूप में प्रदान किया जाएगा।

सदस्यों से अनुरोध है कि एजीएम के नोटिस में निर्धारित सभी निर्देशों, विशेष रूप से एजीएम में शामिल होने, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का तरीका और एजीएम के समय ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने के निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

कृते सलौरा इंटरनेशनल लिमिटेड

हस्ता./-

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक : सितम्बर 03, 2023

अनुभव निगम  
(कंपनी सचिव)VASTU  
HOUSING FINANCE

वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉ

यूनिट 203 और 204, द्वितीय तल, "ए" विंग, नवभारत एस्टेट,  
मुंबई 400015, महाराष्ट्र, सीआईएन नंबर: U6592;

## विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रयत्न) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पटित द्वितीय परिवर्तितियों हित प्रयत्न अधिनियम 2002 के अंतर्गत अथवा परिवर्तितियों के विकल्प नीलामी विक्रय सूचना एतद्वारा सर्वसाधारण को तथा विशेष रूप में उधारकर्ता(ओं), सह-उधारकर्ता(ओं) तथा गारंटर(ओं) को सु पास बंधककृत/प्रभारित निम्न विपरिणत अथवा संपत्ति, जिसका भौतिक अधिग्रहण (वास्तु हाउसिंग फाइनेंस) प्रतियुक्त ऋणदाता द्वारा कर लिया गया है, का विक्रय "जैसी है जहां है", "जैसी है जहां है" और "वह प्रकरणों के विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है।

क्र. सं.	उधारकर्ताओं के नाम, ग्राहक सूचना तिथि, राशि एवं एलएएम नं.	संपत्ति/यों का संक्षिप्त विवरण
1.	मिर्जा शहराज बेग (उधारकर्ता), शहराजदा बेग (सह-उधारकर्ता), मिर्जा शहराज बेग (सह-उधारकर्ता), मिर्जा अदनान बेग (सह-उधारकर्ता), आबिदा बेगम (सह-उधारकर्ता) ग्राहक सूचना दिनांक: 17-जनवरी-23 और राशि रु. 8,47,342 और रु. 2,31,372 दिनांक 05-जन-23 के अनुसार+ब्याज लागत इत्यादि LP000000027560 & LP0000000035906	प्लॉट नंबर डब्ल्यूजैड 39 नू तल डू नंबर 15/1 का भाग, ग्राम केशोपुर, गुरुर, नई दिल्ली-110018

विक्री के अन्य नियम और शर्तें: 1) यहां इसमें ऊपर उल्लिखित धरोहर राशि जमा (ईएमडी) राशि के तल के पक्ष में आहरित मुंबई में युगतानयोग्य डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चेक के साथ संलग्नित अलग प्रस्ताव दिए के बिना दिए जानेवाले प्रस्ताव सीधे-सीधे निरस्त कर दिए जाएंगे। ईएमडी पर कोई ब्याज देय नहीं है और पते के प्रमाण की प्रति जैसे कि वोटर आईडी, पैन कार्ड, ब्राह्मण लाइसेंस, पासपोर्ट इत्यादि 06-अ बजे से लेकर सायं 5.00 बजे तक अद्योहस्ताक्षरी के पास जमा कर दें। 3) इच्छुक पक्ष 05-अक्टूबर-20 के बीच उक्त संपत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं। 4) प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अद्योहस्ताक्षरी के पास स्वीकार या अस्वीकार करने या नीलामी स्थगित या मुल्यव करे या किसी भी समय शर्तों में परिवर्तन संपत्ति या संपत्तियों "जैसी है जहां है और जो कुछ भी है आधार" पर बेची जाएगी और बीएचएफसीएल/निकायों की देनदारियों, दायित्वों या शुल्क या ग्रहणाधिकार और सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण के कि जिम्मेदार नहीं है। 6) उच्चतम मूल्य की पेशकश करने वाले क्रेता के पक्ष में विक्री की पुष्टि की जाएगी अधिकारी के रूप में, परिस्थिति के आधार पर अपने पूर्ण विवेक से, परस्पर बोली लगाने की अनुमति दे बोलीदाताओं को खरीद मूल्य का 25 प्रतिशत उच्चतम बोलीदाता घोषित करने पर तत्काल जमा करना है से 15<sup>वें</sup> दिन या उससे पहले जमा करना होगा। किसी भी कारण से युगतान करने में विफलता के परिणतिया जाएगी 8) क्रेता, सफल बोलीदाता को शुल्क, करोंस के लिए देय शुल्क, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण अनुसार लागू देय राशि है, का भुगतान वहन करना होगा। 9) इच्छुक पक्ष, अधिक विवरण या नियम और ए लिमिटेड, से संपर्क कर सकते हैं- संपर्क हेतु दिल्ली में व्यक्ति: श्री मिशन सिंह, संपर्क नंबर: 8178474 लिमिटेड, एफ नं: 301/10185 मेजनाइन गुरुद्वारा मार्ग परिवर्तनी एल्क. क्षेत्र कतोल बाग दिल्ली 110006 30 दिनों का वैधानिक विक्री नोटिस है, उधारकर्ता/गारंटर को एतद्वारा नीलामी की तारीख से पहले ऋ ब्याज और सहायक खर्चों का भुगतान करने के लिए अधिचुचित किया जाता है, ऐसा न करने पर र्था और बकाया देयराशियां, यदि कोई निकलती हों, उनकी वसूली ब्याज और लागत के साथ की जायेगी।

दिनांक : 04-09-2023

स्थान : दिल्ली

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE A OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY

## PUBLIC ANNOUNCEMENT



## JYOTI CNC AUTOMATION LIMITED

Our Company was originally incorporated as 'AMB Engineering Company Private Limited', at Gujarat as a private limited company under the Companies Act, 1956 and received a cert the RoC, on January 17, 1991. Thereafter, pursuant to a special resolution passed by the Shareholders of our Company on April 19, 2002, our Company's name was changed to 'Jyoti CNC' and a fresh certificate of incorporation dated May 08, 2002, was issued to our Company by the RoC. Subsequently, pursuant to a special resolution passed by the Shareholders of our Company's name was changed to 'Jyoti CNC Automation Private Limited', and a fresh certificate for incorporation dated April 28, 2008 was issued to our Company by the RoC. Thereaf into a public limited company pursuant to a special resolution passed by the Shareholders of our Company on September 17, 2012 and the name of our Company was changed Automation Limited', pursuant to a fresh certificate of incorporation issued by the RoC on November 30, 2012. For details of changes in the name and registered office of our Com Corporate Matters' on page 210 of the Draft Red Herring Prospectus dated September 1, 2023 ("DRHP").

Registered and Corporate Office: G - 506, Lodhika GIDC, Village Metoda, Rajkot - 380 021, Gujarat, India; Contact Person: Maulik B Gandhi, Company Secretary ar Tel: + 91-2827-235182; E-mail: investors@jyoti.co.in; Website: www.jyoti.co.in; Corporate Identification Number: U29221GJ1991PLC014914

OUR PROMOTERS: PARAKRAMSINH GHANSHYAMSINH JADEJA, SAHDEVSINH LALUBHA JADE VIKRAMSINH RAGHUVIRSINH RANA, AND JYOTI INTERNATIONAL LLP

INITIAL PUBLIC OFFERING OF UP TO [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 2 EACH (EQUITY SHARES) OF JYOTI CNC AUTOMATION LIMITED (OUR COMPANY) F PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE) (ISSUE PRICE) AGGREGATING UP TO ₹ 10,000.00 MILLION (ISSUE). THE ISSUE IN